

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1291]
No. 1291]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 27, 2006/कार्तिक 5, 1928
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 27, 2006/KARTIKA 5, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2006

का.आ. 1850(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तमिलनाडु राज्य के केन्द्रीय विद्युत् लाइनों के तहत राजमार्गों के नीचे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के तहत राजमार्गों के नीचे के तहत राजमार्गों के नीचे के तहत राजमार्गों के नीचे के तहत राजमार्गों के लिए वह भूमि अधिग्रहीत है, जिसका वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने के अपने अधिकार की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन अधिग्रहण के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक सप्ताह के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष जिला राजस्व अधिकारी, (भूमि अर्जन), राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला कांचीपुरम और धिरूवल्लूर, कांचीपुरम, तमिलनाडु, जिनका कैम्प कार्यालय तालुक कार्यालय परिसर, पुनामल्लू में है, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकारित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

[तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के मदुरावोयल बाईपास से कोयम्बेडु जंक्शन के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।]

क्र.सं.	जिला का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	ब्लाक न०	पुराना सर्वेक्षण संख्या	नया सर्वेक्षण संख्या	वर्गीकरण	क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	चैन्नई	एगमोर नंगम्बक्कम	कोयम्बेडु	41	2/1 भाग	2/6	रेयतवारी मनई	0207
				41	2/1 भाग	2/8	रेयतवारी मनई	0043

[फा. सं. भाराप्र/13012/4/98-पीआई/3ए/एलए-एगमोर/एसपी]

प्रभाकर, उप सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(Department of Road Transport and Highways)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2006

S.O. 1850(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for widening of road from Maduravayal Bypass to Koyambedu Junction in National Highway No. 4, Koyambedu village, Egmore - Nungambakkam Taluk, Chennai District in the State of Tamil Nadu, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, i.e., the Special District Revenue officer (Land Acquisition), National Highways, Kanchipuram and Tiruvallur Districts, at Kanchipuram, Tamil Nadu, having his camp office at Taluk Office Premises, Poonamallee in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested persons at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired for widening (four laning and junction improvement / construction of free-flow facilities) maintenance, management and operation of National Highway No.4 in Koyambedu Village, Egmore-Nungambakkam Taluk, Chennai District in the State of Tamil Nadu.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Block number	Old Survey number	New Survey number	Classification	Extent required (in square meters)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)
1	Chennai	Egmore-Nungambakkam	Koyambedu	41	2/1 Part	2/6	Ryotwari Manai	0207
				41	2/1 Part	2/8	Ryotwari Manai	0043

[F.No. NHAI/13012/4/98-PI/3A/LA-Egmore/SP]

PRABHAKAR, Dy. Secy.